

Jamna Auto Industries Ltd.

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,

Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051, Maharashtra

January 28, 2021

To,

BSE Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, G- Block, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001 Maharashtra

BSE Code: 520051 NSE Code: JAMNAAUTO

Subject - Newspaper Advertisement- Notice of Board Meeting

Dear Sir/Madam.

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copy of newspaper advertisement with respect to Notice of Board Meeting to be held on February 05, 2021 published in Financial Express and Jansatta dated January 28, 2021.

To,

Kindly take the above on records.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For Jamna Auto Industries Limited

Praveen Lakhera Company Secretary & Head-Legal

Encl: As above

Corporate Office: 2, Park Lane, Kishangarh, Vasant Kunj, New Delhi-110070

Tele: +91-11-26893331 | Fax: +91-11-26893180 | www.jaispring.com | CIN: L35911HR1965PLC004485

Regd Office: Jai Spring Road, Yamuna Nagar (Haryana)-135 001, India | Tel: +91-1732-251810 | Fax: +91-1732-251820

YAMUNA NAGAR | MALANPUR | CHENNAI | JAMSHEDPUR | PANTNAGAR | HOSUR | PUNE

MARBLE FINVEST LIMITED Regd. Off.: 3, Industrial Area. Phase-I, Chandigarh, CIN: L65910CH1984PLC021285 marblefinltd@gmail.com, www.marblefinvest.com T.0172-3911701/61, F.0172-3911704

NOTICE
Meeting of Board of Director of the Company to be held on 11/02/2021, interalia to consider Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31/12/2020. Notice is available at Company's website and stock Exchange's website:www.msei.in. For Marble Finvest Ltd

Place: Chandigarh Sd/-(Suraj Choudhary), Dated: 27.01.2021 Company Secretary

(IVI)

. Gurminder Kaur Bakshi, w/o Dr. JPS Bakshi r/o 21, Abul Fazal Road, Near Babar Road, New Delhi 110001 hereby declare that the following original receipts issued by M/s DLF Utilities Ltd. in respect of property A 8/14, Sector 91 & 92, DLF Garden City have been lost

GRD/CRB/00016/0711	07.07.2011	1200000.00
GRD/CRB/00026/0911	02.09.2011	3945033.60
GRD/CRB/00086/1111	07.11.2011	3716005.20
GRD/CRB/00093/0112	09.01.2012	2481460.80
GRD/CRB/00170/0212	17.02.2012	2039.56
GRD/CRB/00480/0212	28.02.2012	182112.00
GRD/CRB/00604/0312	30.03.2012	182112.00
GRD/CRB/00093/0412	07.04.2012	2481460.80
GRD/CRB/00114/0712	09.07.2012	2481460.80
GRD/CRB/00049/1012	04.10.2012	2481460.80
GRD/CRB/00170/1012	12.10.2012	2114.00
GRD/CRB/00023/0113	04.01.2013	2478849.80
GRD/CRB/00086/0413	06.04.2013	2478913.80
GRD/CRB/00001/0915	01.09.2015	3000000.00
GRD/CRB/00013/0915	21.09.2015	936000.00
GRD/CRB/1220/00001	07.12.2020	3984664.00
		(A)

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED CIN: L35911HR1965PLC004485 Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana Corporate Office: 2, Park Lane, Kishangarh, Vasant Kuni, New Delhi - 110070

Telephone: +91 11 26893331, Fax: +91 11 26893180 Website: www.jaispring.com NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, notice is hereby given that meeting no. 5/2020-21 of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, February 05. 2021 at 1:00 P.M., to consider, approve and take on record the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results of the Company for the guarter ended December 31, 2020 and to consider and recommend the interim dividend, if any, for the financial year 2020-21 along with other matters. Further, in terms of provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015

results are made public on Friday, February 05, 2021. The above details are also available on the website of the Company viz

Place: New Delhi Date: January 27, 2021

(CIN: L74899DL1971PLC005679)

Registered Office: C-55, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi-110092 Email: iquebal.ahmad@sheelafoam.com Phone: +91 11 2202 6875, Facsimile: +91 11 2202 6876 Website: www.sheelafoam.com

other applicable provision, if any, of the Companies Act, 2013 read with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in accordance with the applicable guidelines circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Sheela Foam Limited (the "Company") seeking the approval of the Members to re-appoint the Independent Directors of the Company through Postal Ballot (only by e-voting through electronic means) ('remote e-voting') as stated in the Postal Ballot Notice("Notice") dated January 22, 2021. The detailed explanatory Statement setting out the material facts concerning the resolutions, forms part of the notice.

www.sheelafoam.com on the websites of Link Intime India Private Ltd. Company's RTA at www.linkintime.co.in and on the websites of Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. Members hereby informed that:

The despatch of the Notice of the Postal Ballot(E-voting) has been

completed on January 25, 2021

As per the MCA Circulars, the Company is sending Postal Ballot Notice (the "Notice") only by email to all its members who have registered their email addresses with the Company or depository(ies) / depository participants. In view of the limited Postal/Courier services and on account of prevailing situation of COVID 19, physical copies of the Notice, Postal Ballot Form and prepaid business reply envelop have not been sent to the members.

The cut-off date for the purpose of reckoning the voting rights and sending the notice is Friday, January 22, 2021(Cut-off Date). The members whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of e-voting.

The detailed procedure and instruction on the process of e-voting, including the manner in which the members who have not yet registered their e-mail addresses can register their email address and/or cast their vote, are

The remote e-voting shall commence on January 27, 2021 at 09.00 a.m. The remote e-voting shall end on February 25, 2021 at 05.00 p.m.

E-voting shall not be allowed beyond February 25, 2021 at 05.00 p.m..

8. The results of the Postal Ballot will be announced by Saturday February 27.

contact detail refer the website of LIIPL or contact Mr. Bharat Bhushan. Link Intime India Private Limited, Noble Heights, First Floor, Plot NH2, C1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi, 110058, Telephone: +91 11 41410592,93,94. Email: delhi@linkintime.co.in

For Sheela Foam Limited

Md Iquebal Ahmad

Date: January 25, 2021 Company Secretary and Compliance Officer Place: Delhi

AMBIKA COTTON MILLS LIMITED

Regd. Off.No.9-A, Valluvar Street,

Sivanandha Colony, Coimbatore - 12

L17115TZ1988PLC002269

E-mail: ambika@acmills.in

Website: www.acmills.in

Phone: 0422-2491504

NOTICE

NOTICE is hereby given, pursuant to

Regulation 47 read with Regulation

29 of SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements)

Regulation 2015, that a meeting of

the Board of Directors of the

Company is scheduled to be held on

Wednesday, the 03" February 2021

interalia, to consider and take on

record the Unaudited Financial

Results for the Quarter / Nine Months

For Ambika Cotton Mills Limited

P.V. Chandran

Managing Director

(DIN: 00628479)

Chairman &

GOVERNMENT OF TAMIL NADU

WATER RESOURCES DEPARTMENT

VELLAR BASIN CIRCLE, CUDDALORE - 607 001.

Form of Contract : Lumpsum - Item Rate Contract

Tender Notice (Two Cover System)

Tender Notice No.14 / VBC, Cuddalore / 2020-21 / Dt. 25.01.2021

Engineer, WRD, Vellar Basin Circle, Cuddalore - 607 001 invites tender

from eligible tenderers for the work of "Augmenting the storage

capacity of the Perumal Tank in Kurinjipadi Taluk of Cuddalore

District (Value of Work: Rs. 11027.36 Lakhs Including GST)" at his

office upto 3.00 PM on 02.03.2021 in sealed covers. The tender will

tender schedule, Qualification Details etc., will be available in the

Government website "www.tenders.tn.gov.in". Any Corrections or

Other informations such as details of Work, Value, EMD, Cost of

be opened at 3.30 PM at his chamber on the same day.

Modifications will be published on website only.

For and on behalf of the Governor of Tamilnadu, the Superintending

ended 31" December 2020.

Coimbatore

23.01.2021

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) (See rule 8(1)]

Punjab & Sind Bank

BRANCH OFFICE: ASAF ALI ROAD BRANCH 1/20 Asaf Ali Road, Delhi- 110002, Ph:- 011-23237020, Email:- d0435@psb.co.in

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Punjab & Sind Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 07.01.2020 calling upon the Borrowers/Guarantors Mr. Raghuveer Chahal (Borrower), Ms. Anita Chahal (Co-Borrower) & Mr. Vinod Kumar

Srivastava (Guarantors) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 13,83,403.30 (Rs. Thirteen Lacs Eighty Three thousand Four Hundred Three & paise Thirty only) as on 31.12.2019 within 60 days from the date of receipt of the said notice with interest and other charges. The borrowers/guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given

to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 9 of the said rules on this 22th day January of the year 2021. The borrowers/guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned

not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab & Sind Bank for an amount of 13,83,403.30 as on date 31/12/2019 and interest thereon as stated above along with other charges. Description of the immovable property

Floor (with roof rights), Sector-16, Rohini, New Delhi-110085 standing in the name of Ms. Anita Chahal W/o Sh. Raghuveer Chahal

All that Part & Parcel of immovable Property bearing no. F-3/97 & 98, 3rd

Date: 22-01-2021, Place: Delhi

Authorised Officer, Punjab & Sind Bank

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda ID fills

B3 Connaught Circus New Delhi

Appendix-IV [See Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (for immovable property) Whereas, the undersigned being the authorized officer of the BANK OF BARODA (Erst while Dena Bank) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section. 13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 17.05.2019 calling upon the borrower/Guarantor/Mortgagor M/s. MVL Credits Holdings & Leasing Ltd & M/s Shiwalik Property Devlopers to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 3,15,35,110/- (Rs Three crore fifteen lac thirty five thousand one hundred ten only) along with further interest within 60 days from the date of

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Physical possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 9 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 25th Day January 2021. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Bank of Baroda

thirty five thousand one hundred ten only) and interest & Expenses thereon with less The borrower's attention is invited to sub -section (8) of Section 13 in respect of time available

(Erstwhile Dena Bank) for an amount of Rs. 3,15,35,110/- (Rs Three crore fifteen lac

to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY Property admeasuring 16000 sq ft (super area) Being No 501 to 502 situated at 5th Floor MVL1 Park Near Red cross Society Sector 15 II Gurgaon Haryana

Date: 25-01-2021, Place: Gurugram Authorized Officer, Bank of Baroda

Kolkata - 700019 Phone: 2283-2226, Fax: 2283-2478 E-mail: investors_cs@hindustancopper.com Website: www.hindustancopper.com CIN: L27201WB1967GOI028825 सचना NOTICE

HINDUSTAN COPPER LIMITED

(A Government of India Enterprise)

Regd. Office: 'Tamra Bhavan',

1. Ashutosh Chowdhury Avenue.

Notice is hereby given that a

meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 3rd February, 2021 to, inter alia, consider and approve financial results of the Company for the guarter ended 31st December, 2020. For further detail please visit

website of the Company www.hindustancopper.com and of Stock Exchanges www.bseindia.com www1.nseindia.com For Hindustan Copper Limited

C S Singhi ED (Co Secretary)

स्थान/Place : Kolkata

तिथि/Date: 25.01.2021

SALE NOTICE FOR

SALE OF IMMOVABLE

BANK OF BARODA

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda 10 · 商品

Recovery Department, East Delhi Region, Plot No. 19 & 31 Community Centre, Preet Vihar, Delhi-110092

APPENDIX- IV-A [See proviso to Rule 6 (2) & 8 (6)]

PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 6 (2) & 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s), Mortgagor (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, possession of which

has been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis for recovery of dues in below mentioned account/s. The details of Borrower/s/Mortgagor/Guarantor/s/Secured Asset/s/Dues/Reserve Price/e-Auction date & Time, EMD and Bid Increase Amount are mentioned below Status of Description of the Date and

Property Branch name Name & address of Possession immovable properties with **Total Dues** EMD time of Inspection and Contact Borrower/s / Guarantor/s Constructive known encumbrances, if any Date & Time E-auction person number Bid Increase Amount /Physical) ₹ 11,48,000/-Saravjeet Kaur W/o Shri Residential Property No WZ-304, 3rd Floor (with Roof | Rs. 7,52,782.96 (Rs Seven Yamuna Vihar 12-02-2021 16-02-2021 Physical Kawaljeet Singh (H. No. Wz-304, & Terrace Rights), Gali No. 2, Gurunanak Nagar, Lakhs Fifty Two Thousand Branch. from 10.00 AM from 11.00 P.M ₹ 1,14,800/-3rd Floor, Galli No. 2, Gurunanak Tilaknagar, West Delhi-110018 in favour of Ms. Seven Hundred & Eighty Chandani Kumari to 02.00 PM to 04.00 P.M. Nagar, Delhi-110018) & Prabhjot | Prabhjot Kaur D/o- Saravjeet kaur measuring 30 sq. | Two & Paise Ninety Six only) Mob. 8750840033, ₹ 10,000/-Kaur (H. No. WZ-304, 3rd Floor, yds., Bounded as : East-Property No. WZ-303, West and plus interest and other Branch Galli No. 2, Gurunanak Nagar, Property No. WZ-305, North-Galli 10 ft., South-remaining charge thereon from 011-22910403 / 02 Delhi-110018) For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided in https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm and https://ibapi.in

also, prospective bidders may contact the authorized officer as above mentioned.

Date: 28-01-2021, Place: New Delhi

Authorized Officer, Bank of Baroda

SIRCA PAINTS INDIA LIMITED CIN: L24219DL2006PLC145092

Regd & Corporate office: Plot No. 50, Phase-2, Badli, Industrial Area, Delhi -110042/Tel: +91-11-42083083 Website: https://sircapaints.com/. Email: info@sircapaints.com

Statement of Deviation(s) or Variation(s) Pursuant to Regulation 32 read with Regulation 47 of SEBI (Listing

Obligation and Disclosures Requirements), Regulation, 2015, we hereby state that there has been no Deviation(s)/Variation(s) for the Quarter ended as on 31st December, 2020 in the utilization of issue proceeds and the entire fund raised from the Initial Public Offer (IPO) has been utilized for the objectives stated in Prospectus dated 23rd May, 2018.

For Further Details, Please visit the website of the Company (www.sircapaints.com) and National Stock Exchange of India Ltd (www.nseindia.com).

> For SIRCA PAINTS INDIA LIMITED Sanjay Agarwal

Date: 27/01/2021 Place: Delhi

is Incorporated/Registered

Last date for submission of Claims

Chairman cum Managing Director FORM B

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF PARAS SPARES AND ACCESSORIES LIMITED Name of Corporate Debtor

PARAS SPARES AND ACCESSORIES LIMITED Date of Incorporation of Corporate Debtor 26/07/1996 Authority under which Corporate Debtor Registrar of Companies-Delhi

Corporate Identity No. / Limited Liability U29220DL1996PLC080700 Identification No. of corporate debtor Address of the registered office & principal 1517/6, Devika Towers, Nehru Place, office (if any) of corporate debtor New Delhi-110019 18.01.2021 as per order of the Date of closure of Insolvency Resolution Hon'ble Adjudicatory Authority Liquidation commencement date of Pronouncement of Order: 18.01.2021 Corporate Debtor Procurement of Certified Copy of order: 27.01.202 Abhishek Anand Name & Registration Number of Insolvency

Regn. No: IBBI/IPA-002/IPN00038/ Professional acting as Liquidator 2016-2017/10077 Address: E-103, LGF, Greater Kailash Address and Email of the liquidator as Enclave-1, New Delhi-110048 registered with the Board E-mail: irpepoch@gmail.com Address: E-103, LGF, Greater Kailash Address and e-mail to be used for Enclave-1, New Delhi-110048 correspondence with the liquidator E-mail: irpepoch@gmail.com

commencement of liquidation of the Paras Spares And Accessories Limited on 18.01.2021. The stakeholders of Paras Spares And Accessories Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 28.02.2021, to the liquidator at the address mentioned against item No. 10.

Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties. Name and signature of liquidator: Abhishek Anand

Registration No: IBBI/IPA-002/IPN00038/2016-2017/10077 Place: New Delhi TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED

7th Floor, Videocon Tower, Jhandewalan Extension, Block-E, Delhi – 110055

1. M/s MITHI INTERIORS PVT LTD, Through its Director Mithlesh Jha, & 2. Legal Heirs of

ANNAPURNA JHA & 4. MITHLESH KUMAR JHA, BOTH R/O: T-2, 3RD FLOOR PANKAJ ARCADE, PLOT NO. 16 SEC-5, Delhi- 110075, Also AT:

A-903, Plot No.3 D Appu Enclave, CGHS, Sector-11 Phase Dwarka, New Delhi-110075, Also AT: Flat No.70, 6th Floor, Manzil Apartment, Plot No.7, Sector-9, Dwarka, New Delhi-110075. SUBJECT: FINAL INTIMITATION FOR REMOVAL OF INVENTORY FROM THE SECURED ASSET BEING COMMERCIAL SHOP/OFFICE/UNIT NO T 2, T 3, T 4, T 5, T 6, T 7, T 8, T 9 ON THIRD FLOOR, SITUATED AT PANKAJ ARACADE, PLOT NO.16, MLU POCKET, SECTOR 5. DWARKA NEW DELHI-110075.

Dear Sir/Madam. It is submitted that Tata Capital Financial Services Limited (TCFSL/Secured Creditor) had

4, T.S., T.6, T.7, T.8, T.9 ON THIRD FLOOR, SITUATED AT PANKAJ ARACADE, PLOT NO. 16, MLU POCKET, SECTOR 5, DWARKA NEW DELHI-110075" (hereinafter referred to as "SECURED ASSET") in accordance to the provisions stipulated under the SARFAESI Act, 2002 and rules That in spite of repeated notices/reminders/intimations dated 27.09.2019 and 07.07.2020, but

not limited to personal visits of employees/officials of TCFSL, to vacate the SECURED ASSET the same was not kept free of other unencumbered goods and belongings of the Mortgagors/Borrowers/addresses or the person using/utilising the same under his/its/her expressed or implied permission/authority on the date of taking over of the physical possession, therefore on that date, a list of inventory of unencumbered goods lying there was prepared by the Court Receiver/Authorised Officer and the same was countersigned by the occupants there at

borrowers/addresses/Mortgagors to remove the Unencumbered Goods lying at the Secured Asset, with due permission from the Authorised Officer, TCFSL, within7 days of receipt of the present notice. As, already intimated Rs. 1,00,000/- p.m. is being applicable from the date of possession for the said unencumbered goods. Furthermore, if the Unencumbered goods are not removed in compliance of the present notice, the Secured Creditor shall be constrained to dispose of and sell the said inventory, without any reference or recourse or opportunity to the BORROWERS for the recovery of the cost and charges incurred thereon, till date.

> Tata Capital Financial Services Ltd. Mob. No. .7290010751



An AMTEK Group Company

(CIN L42274DL1997PLC270939) Regd. Office: 3, LSC, Pamposh Enclave, Guru Nanak Market, Opp. LSC Market, New Delhi - 110 048

TO INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND Notice is hereby given pursuant to PROVISIONS OF THE Companies Act, 2013

read with Investor Education & protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund Rules) 2016 as amended and notified by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. The Rules, inter alia, provide for transfer of all shares in respect of which dividend

Investors Education & Protection Fund. Accordingly, the Company had sent individual communication to those shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF under the said Rules at their registered addresses. The Company has uploaded the details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF, w.r.t the year 2012-13, on its website at www.jmtauto.com. Shareholders are requested to refer to the Investors Relations page on the website to verify the details. The shares so transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEF Authority after following the procedure prescribed under the Rules. For any clarification on the matter please contact the company's RTA C B Management Services Pvt Ltd. P-22 Bondel Road, Kolkata-700019, Tel No-033-4011-6700, email-rta@cbmsl.com.

वैक ऑफ़ बड़ोदा

SAM BRANCH 4th FLOOR, Bank of Baroda RAJENDRA BHAWAN, RAJENDRA PALACE **NEW DELHI-110008**

CONTROL IN COMPANIES

Factory Address: Village: Jitwal Kalan, Tehsil: Malerkotla (Sangrur), Punjab-148023

Ludhiana, Punjab -141003

Court Road, Civil Lines, Ludhiana -141001 5. Ms. Radhika Kirpal, 1-F, Saaheed Bhagat Singh Nagar, Pakhowal Road Ludhiana(Punjab)-141013

7. Surinder Kumar Palta H No 1219, Sector 15-B, Chandigarh-160015 Also at: 303 Rohit House, 3 Tolstoy Marg, Connaught Place New Delhi-110001 Also at: Factory-Vil Jitwal Kalan Tehsil: MalerKotla Dist: Sangrur Puniab-148023

Also at: 303 Rohit House, 3 Tolstoy Marg, Connaught Place New Delhi-110001 Also at: House No 531, 2nd Floor, Sec-16 D, Chandigarh-160015 Also at: Factory-VillJitwal Kalan Tehsil: MalerKotla Dist: Sangrur Punjab-148023

Also at: D-54.2nd floor 100 Feet Road Chhattarpur Enclave New Delhi-110074

Directors/ Partners/ Proprietor/ Guarantors as Wilful Defaulters and **Opportunity for Representation there against.** ned account and write to inform you that due to non-nayment of it account turned to Non-Performing Assets in the books of the Bank on 30.09.2015.

guidelines of RBI on the following grounds:

Thus the borrower has defaulted in meeting its payment/ repayment obligations to the lender even when they have the capacity to honour the said obligations. 2. The forensic auditor clearly pointed out that the company has utilised short term funds for lon term

purposes. The same can be summarised as below:

For the FY 2013-14-Rs. 4.72 Cr was utilised for long term purposes

utilised the finance from the lender for the specific purposes for which finance was availed of but has diverted the funds for other purposes. 3. Forensic Auditor found that company has gave advances of Rs. 0.39 Cr to various parties in various

The company made total sales of Rs. 1.42 Cr and Rs. 0.23 Crs in FY 2016-17 and FY 2017-18 respectively to Clean trading and Services Pvt Ltd in which Utkarsh Pahwa is director (related party) but the same was not realised and company also made payment of Rs. 0.73 Cr through Indusind Bank other than the consortium bank to the said party.

The company also transferred Rs. 0.19 Cr in the FY 2016-17 to Sharman Polymer Pvt Ltd in which Alka Pahwa is director(related party). Further in the same year Rs. 0.03 Cr has been transferred to expenses payable to set off receivable for Alka Pahwa. In the FY 2017-18 ,Rs. 0.28 Cr has been given to AlkaPahwa for legal and professional expenses whereas they have never paid such expenses to AlkaPahwa ir

siphoned off the funds so that the funds have not been utilized for the specific purpose for which finance

Yours faithfully

DIPR/549/Tender/2021

Vellar Basin Circle, Cuddalore - 607 001.

Superintending Engineer, WRD.,

of Corporate Affairs, Northern Region In the matter of the Companies Act, 2013, Section 14 of Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2018

Form No. INC-25A

Advertisement to be published in the

Newspaper for conversion of Public

Company into a Private Company

Before the Regional Director, Ministry

In the matter of M/s ACL Mobile Limited having its Registered Office at104-107 Hemkunt Tower 98, Nehru Place, New Delh (Applicant) Notice is hereby given to the general public

that the Company intending to make an application to the Central Government under Section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a Private Limited Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 7th December, 2020 to enable the Company to give effect for such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the Company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi 110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office

at the address mentioned below:

For and on behalf of the Applicant **ACL Mobile Limited**

New Delhi - 110019

(Pronamika Bhattacharya) Address of Registered Office: 104-107 Hemkunt Tower 98, Nehru Place

Date: 25.01.2021 Place: New Delhi

NOTICE FOR SALE OF ASSETS UNDER INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016 GTHS RETAILS PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION)

Liquidator's Address: 110/S2, Saraswati Block, D-6, Vasant Kuni, New Delhi - 110070

Email id: liquidator.gths@gmail.com | Mob: 9810273888 Notice is hereby given to the public in general under the insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and Regulations there under, that the following Assets and properties of M/s. GTHS RETAILS PRIVATE LIMITED (In Liquidation) forming part of liquidation estate are for sale by the Liquidator. Assets will be sold by E-auction through the service provider M/s Augeo

Brief Description of Reserve Price EMD Bid Incremental (IN INR) (IN INR) Value (IN INR) Assets for Sale Office Equipments and Furniture & 47.250/-5000/-Fittings including Computer, Printer, Server System, Windows Operating System, UPS, Water Cooler, Split AC, Battery Rack, Computer Table, Wooden Counters,

with prior intimation to the liquidator. EOI Submission last date - 02.02.2021 till 6 PM. Time & Date of E-Auction: 03.02.2021 3.00 PM to 5.00 PM (with unlimited extension of 5 minutes)

Brief Terms & Conditions of the sale is as under: E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER IS. BASIS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS" as such sale is without any kind of

Bids documents shall be submitted to the Liquidator either through email at the aforementioned email id or by submitting the hard copy in the format prescribed within the timelines stated above. The bid form along with detailed terms & conditions of complete Eauction process can be downloaded from the website of M/s Augeo Asset Management Company (123done.in) viz., https://e-auction.123done.in/.

further details in order to submit the bid.

Date: 27/01/2021

123401; Email: cs8306@pnb.co.in

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) and in exercise of powers conferred under section 13 read with Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued demand notices on the dates mentioned against each account calling upon the respective

borrowers/guarantors to repay the amount at mentioned against each account within 60 days from the date of notices/date of receipt of said notices. The borrowers/guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers/ guarantor in particular and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rule, on the dates mentioned against each account. The borrower's/ guarantors/mortgagors attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in

respect of time available to redeem the secured assets. The borrowers/guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Punjab National Bank for the

nount and interest triefeon, gi	ven below.				
Name of the Branch Name of the Account Borrower / Guarantor	Description of Property Mortgaged	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount O/s as per Demand Notice	
	Registered Mortgage of Property measuring 0B-01B-0 share out of Khewat No. 111, No. 485/2(1-7-10) total land	7B (200 Sq. Khatoni No.	Yds), 27/550 171, Khasra	Rs. 43,38,158.70 plus interest and	

situated at Dhani Road, CharkhiDadri Bounded By: North- House of Smt. Mukesh w/o Dinesh South- Dhani Road East-House of Sh. Vijay Kumar s/o Sh. Pratap Singh West-House of Ramehar Place: Rewari Authorized Officer, Punjab National Bank Dated: 22.01.2020

> SECURITY INTEREST ACT 2002 110014 (2) MRS. MALTI (Guarantor) At 22, BAZAR LANE, BHOGA JANGPURA, NEW DELHI - 110014 (3) MR. RAJNIKANT (Guarantor) At 22 BAZAR LANE, BHOGAL JANGPURA, NEW DELHI - 110014

with Intec Capital Limited. You, committed default in repayment of loans and as such your Loan Accoun maintained with Intec Capital Limited was declared Non-Performing Asset (NPA) on 30.06.2016 and a sum of Rs. 64,86,112/- (Rupees Sixty Four Lakh Eighty Six Thousand One Hundred and Twelve Only) is outstanding as on 31.12.2020.

Only) as on 31.12.2020. You are called upon to pay Rs. 64,86,112/- (Rupees Sixty Four Lakh Eighty Six Thousand One Hundred and Twelve Only) within 60 days from the date of this notice failing which Intec Capital Limited will be constrained to exercise its rights of enforcement of security Interest as against the Secured Assets given in the Schedule hereunder. This notice is without prejudice to any other right remedy available to the Intec Capital Limited. SHEDULE

Installed at M/s Print Solutions, 26, (LGF) Bazar Lane, Bhogal, Jangpura, New Delhi - 110014 AUTHORISED OFFICER Dated: 25.01.2021 INTEC CAPITAL LTD. Place: New Delhi

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench-III, has ordered the

submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means.

BOTH R/O:T-2, 3RD FLOOR PANKAJ ARCADE, PLOT NO. 16, SEC-5, DWARKA, NEW DELHI

In ref: Loan Account Number 5518392, 6130455, 6130466

already sold the property bearing number "COMMERCIAL SHOP/OFFICE/UNIT NO T 2, T 3, T

That, vide the present final intimation Notice, the Secured Creditor once again call upon the

Place: New Delhi Date: 27.01.2021

> 1. M/s. Good Luck Carbon Private Limited, Registered office: D-54 A, 2nd floor, 100 Feet Road, Chattarpur Enclave, New Delhi-110074 Also at: 303, Rohit House, 3, Tolstoy Marg, Connaught Place, New Delhi-110001, Delhi, India

4. M/s Professional People Private Limited 1307/1, Shree Annapurna Bhawan, Old

Tehsil: Maler Kotla Dist: Sangrur Punjab-148023 Also at- 45- Chadha Farm House band Road OPP IIPM College Chhattarpur New Delhi-110074 Also at: House No 531, 2nd Floor, Sec-16 D, Chandigarh-160015

8. Tejinder Singh Cheema 178-R, Model Town, LUDHIANA, Punjab, 141001

Show Cause Notice for declaring M/s.GoodLuck Carbon Private Limited and its

We further write to inform you that as per the directions of the Committee of Executives on Wilful Defaulters of our Bank and on scrutiny of your account based on your acts of omission and commission, deeds documents and writings, performed /executed by the company/firm/borrower/guarantors, the company/firm and its Directors/ Partners/ Proprietor/ Guarantorsbe classified as Wilful defaulter as per . The account turned NPA on 30.09.2015. The financial statement for the FY 2014-15 clearly shows that company was having operating profit of Rs. 11.15 Cr and as per forensic audit report dated 02.11.2019

dates and in Following Years neither the material/service received against such advance nor such advance received back from supplier. such amount is standing till 2018 which ultimately results that the company was financing to other parties at their own cost.

Thus the borrower has defaulted in meeting its payment/ repayment obligations to the lender and has

Assistant General Manage

financialexp.epap.in

and Company's Code of Conduct for insider trading & fair disclosure, the trading window closure period for dealing in securities of the Company by the insiders has commenced from Friday, January 01, 2021 and the same will open 48 hours after the quarterly financial www.jaispring.com and also on the website of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com For Jamna Auto Industries Limited Praveen Lakhera

Company Secretary & Head-Legal

SHEELA FOAM LIMITED

NOTICE OF POSTAL BALLOT/E-VOTING Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Sections 108, 110 and

The Notice will also be available on the website of the Company at

2021 on website of the Company www.sheelafoam.com and shall also be available on the website of LIIPL on https://instavote.linkintime.co.in. And simultaneously intimated to stock exchanges where the shares of the In case any gueries related to e-voting, members may contact to LIIPL, for

Asset Management Company (123done.in) via website https://e-auction.123done.in/

Dressing Lights etc., and Inventory (readymade women garments) at NOIDA (UP) Date of Inspection: 28th January 2021 to 1 February, 2021 (from 12.00 Noon to 4.00 P.M)

Contact Person For Inspection: Mr. Shekhar Singh Mobile No. 9711522275 (with prior intimation to liquidator at the aforementioned e-mail id)

nterested bidders may contact the Liquidator or Mr. Shekhar Singh (Mob No.9711522275) for RAMIT RASTOGI, Liquidator Regn. No: IBBI/IPA-002 /IP-N00297/2017-18/11032 Place: New Delhi

punjab national bank थिएए पंजाब नैशनल बैंक ... the name you can BANK upon! पंजाब नैशनल बैंकभरोसे का प्रतीक !

Circle Sastra Rewari, LDM Offfice, Shop No. 24, 1st Floor, New Grain Mandi Rewari Whereas undersigned being the authorized officer of PUNJAB NATIONAL BANK under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002

Inder Singhand Mortgagor No. 485/ 2(1-7-10), total land measuring 01B-07B-10B, charges with w.e.t standing in the name of Smt. Mukesh Devi w/o Sh. /Guarantor Smt. Mukesh Devi 30.09.2020 Dinesh Kumar r/o Village Patuwas, CharkhiDadri

> **Publication Demand Notice** NOTICE UNDER SEC. 13 (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF Demand Notice dated 14.01.2021 Sent on 18.01.2021 by Speed Post to (1) M/S PRINT SOLUTION (Borrower) THROUGH ITS PROPRIETOR, MRS MALTI At 26, (LGF) BAZAR LANE, BHOGAL, JANGPURA, NEW DELHI

INTEC CAPITAL LIMITED

The Intec Capital Limited issued notice dated 14.01.2021 under the Act or 18.01.2021 calling upon you to repay the outstanding amount of Rs. 64.86.112/-Rupees Sixty Four Lakh Eighty Six Thousand One Hundred and Twelve

SUBJECT: Loan Account No. LNNHP00213-140002808 dated 30.09.2013

The specific details of the assets in which security Interest is created are enumerated hereunder HYPOTHECATED ASSETS:- (1) DIGITAL SOLVENT PRINTER IDS JUMBO JET (2) ECO SOLVENT PRINTER IDS-180 (3) U.P.S

(DIN: 01302479)

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may

28.02.2021

WITHOUT PREJUDICE Dated: 23.01.2021

Authorized Officer

Reserve Price (Rs.)

Phone: 0657-6626340; E-mail: jmt.auto@jmtauto.com; Website: www.jmtauto.com NOTICE TO SHAREHOLDERS FOR TRANSFER OF EQUITY SHARES

has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years, to the

For JMT AUTO LIMITED (Mona K Bahadur) Company Secretary

Also at-1020, Dhandarai Kalan, Ludhiana-141010 **2. Andaj Johar** 16-R, Model Town Ludhiana-141002 3. M/s.Plus One Planners private Limited H. NO. 476, Urban Estate, Phase-1 Dugr

6. Rajender Kumar Pahwa W-12 Greater Kailash Part II New Delhi-110048 Also at:303 Rohit House, 3 Tolstoy Marg, Connaught Place New Delhi-110001 Also at: D-54,2nd floor 100 Feet Road Chhattarpur Enclave New Delhi-110074 Also at: Factory-Vill Jitwal Kalan

also, the auditor clearly mentioned that historically borrower had the capacity to pay Rs. 18.54Cr in FY

For the Fy 2014-15-Rs. 59.50 Cr was utilised for long term purposes. Thus the borrower has defaulted in meeting its payment/ repayment obligations to the lender and has not

In terms of RBI guidelines and to comply principles of natural justice, if you, desire, you may send your submission for consideration by the Committee of Executives, headed by our Executive Director within 15- days from the date of receipt of this letter as to why your account and you be not classified by Bank as a Wilful Defaulter. The Committee reserves the right to give or not to give the personal hearing to decide about classifying as wilful defaulter in case your submission is received. Please note that, in case your submission against the intention of Bank to declare you as a Wilful Defaulter

New Delhi

was availed of, nor are the funds available with the firm/company in the form of other assets.

is not received within -15- days from the date of receipt of this letter, the Bank will proceed further and classify your account as wilful defaulter. Bank reserves the Right to publish the name and photograph o Wilful Defaulter in News Paper and will initiate the necessary recovery action as per extant guidelines issued by Reserve Bank of India. This communication is issued as per the directions of the Committee of Executives on Wilful Defaulters

पास, शिव उद्योग विहार, दिल्ली-

नांगलोई, नई दिल्ली इसके निदेशक श्री

हरियाणा-124507

OSBI

भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त परिसम्पत्ति प्रबंधन शाखा, प्रथम तल, एससीओ 99-107,

ई-नीलामी बिक्री सूचना

मध्य मार्ग, सैक्टर 8-सी, चंडीगढ़, फोन नं. 0172-4567165 चल/अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सुचना

डएमडी तथा दस्तावेजों (हार्ड कॉपी) और (ऑन-लार्डन) प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय 11.02.2021, 16.00 बजे

ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 12.02.2021, 11.00 बजे से 13.00 बजे तक (बिक्री के निष्कर्ष तक प्रत्येक अवधि को 5 मिनट का असीमित विस्तार के साथ)

प्रतिभति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 6(2) व 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय सम्पतियों के प्रतिभतिकरण एवं पनः निर्माण तथा प्रतिभति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सुचना

वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन वैंकों को रेहन अचल सम्पत्तियों की बिक्री। चुंकि, भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 की धारा 13(2) के अधीन जारी सुचना के अनुवर्ती यहां नीचे वर्णित बैंक ऋणों जमा ब्याज की वसुली के लिए निम्नलिखित ऋण खाते में प्रत्येक खाते के अंतर्गत वर्णित तिथि को निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा "जैसी है जहां है और जैसी है जो कुछ है" के अधिकार सहित ले लिया है और चूंकि ऋषों की अदायगी करने में असफल रहने के अनुवर्ती, अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित सम्पत्ति की बिक्री हारा बैंक ऋणों की वसुली करना प्रस्तावित किया है। बिक्री अधोहस्ताक्षरी हारा येवपोर्टलः (https://www.bankeauctions.com) पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से की जाएगी।

5.	march mar mare	चल/अचल संपत्तियाँ	बकाया राशि और	काराखात मृत्य	सपात क	संपंक व्याक्त
t.	खाते का नाम	का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	ईएमडी	निरीक्षण की	और
		[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ाठमाठ माहिस की विधि	बोली वृद्धि गति	तिथि/समय	मोबाईल ने.
. 1	. भोमिया बटन्स प्राईवेट लिमिटेड,	बहादुरगढ़ (हरियाणा) और लुधियाना	18,74,53,016/- रुपए जो	संपति 1	(संबंत्र एवं मह	ीनरी)
4	जिकृत कार्यालयः 48/52, पंजाबी	संपत्ति 1: एच.पी. सर्विस स्टेशन के पास, शिव उद्योग	19.02.2020 को है जमा आगामी	4.12 करोड़ रु.	05.02.2021	श्री मनोज कुमा
	गग, नई दिल्ली-110026, मैं.	विहार, ग्राम अशोदा, सिवान, दिल्ली-रोहतक रोड,	ब्यान और खर्चे इसके बाद की	41.20 लाख रु.	11,00 बजे	सिंह मोबाईल न
100	गोमिया बटन्स प्राईवेट लिमिटेड,	तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा-124057		1.00 लाख रु.	16.00 बजे तक	0-9463927109
	3 किमी दूर, एचपी सर्विस स्टेशन के	और लुधियाना में स्थित बटन्स यूनिट के फैक्टरी में	नोटिस की तिथि: 20.02.2020		संपत्ति 2:	
100	रास, शिव उद्योग विहार, ग्राम अशोदा,	स्थापित संयंत्र एवं मशीनरी।		67.00 लाख क.	05.02.2021	श्री मनोज कुमा
	सवान, दिल्ली-रोहतक रोड तहसील स्हादुरगढ़, जिला झज्जर , हरियाणा-	संपत्ति 2: एच.पी. सर्विस स्टेशन के पास, शिव उद्योग		6.70 लाख रू.	11.00 खजे	सिंह मोबाईल न
	24057, मै. भोमिया बटना प्राईवेट	दिल्ली-रोहतक रोड, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर भोमिया बटन्स प्रा. लि. के फैक्टरी में स्थापित नीटिंग		1.00 लाख रु.	16.00 बजे तक	0-9463927109
	लेमिटेड, 2785/ए, विपरित ऋतंभरा	सामया बटन्स प्रा. 1ल. क फक्टरा म स्वापत नाटन संपत्ति 3: एच.पी. सर्विस स्टेशन के पास, शिव उद्योग	- MO		संपत्ति ३:	
	बिलक स्कूल, सुंदर नगर, लुधियाना-	दिल्ली-रोहतक रोड, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर		4.00 लाख ह.	05.02.2021	श्री मनोज कुमान
	41007, श्री अमित जैन पुत्र दिवंदर	भोमिया बटन्स प्रा. लि. में स्थित भंडार।		40,000/- To.	11.00 बजे	सिंह मोबाईल न
	हमार जैन , मकान नंबर बी–l–1125, वेष्णु पुरी, गली नंबर 1, बृंदाबन रोड,	लुधियाना (पंजाब)	N	10,000/- T.	16.00 बजे तक	0-9463927109
	वर्णु पुरा, गला नवर १, वृदावन राठ, संविल लाइंस, लुधियाना-141001,	संपत्ति 4: श्री रिपन कुमार जैन सुपुत्र श्री दविंदर कुमार जै			संपत्ति 4:	
	सावल लाइस, लावपाना-141001, ब्री संदीप जैन पुत्र श्री डिप्टी कुमार	628 दिनांक 12.04.2002 के अनुसार सिटी प्लेस, चौड़ी		6.00 लाख रु.	05.02.2021	श्री मनोज कुमा
	तैन, मकान नंबर 48/52, प्रथम तल,	लुधियाना, पंजाब-141001 में स्थित कमर्शियल दुकान		60,000/- To	11.00 बजे	सिंह मोबाईल न
	ांजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 , श्री	फ्लोर), (बहुमंजिला भवन एम.सी. नं. बी-आईएक्स 350 यार्ड (144.00 वर्ग फट)।	/350-ए/2) रक्तवा १६.०० वर्ग	10,000/- T.	16.00 बजे तक	0-9463927109
f	रेपन जैन पुत्र श्री दविंदर कुमार	संपत्ति 5: श्री अमित कुमार जैन और श्रीमती स्नेह लता जै	न के नाम पर विकी विलेख नं	10,000/-		
4	तैन, मकान नं. बी-I-1125, विष्णु	7092 दिनांक 23.06.1998 (क्षेत्र 167.50 वर्ग यार्ड के ई		88.00 लाख ह.	संपत्ति डः 05.02.2021	श्री मनोज कुमा
	(री, गली नंबर 1, बृंदाबन रोड,	और श्रीमती रनेह लता जैन के नाम पर बिक्री विलेख नं. 2		8.80 लाख ह	11.00 बजे	सिंह मोबाईल न
1	संविल लाइंस, लुधियाना 141001	अनुसार महल बघाट स्थानीय तौर पर विष्णु पुरी, गली नं			से	0-9463927109
	पंजाब), श्री रिपन जैन पुत्र श्री	लाइंस, लुधियाना-141001 के नाम से ज्ञात, में स्थित खर		1.00 लाख ह	16.00 बजे तक	0-9463927109
	विंदर कुमार जैन, मकान नंबर	नं 1676/2079 (जमार्थदी वर्ष 1984-85 के अनुसार)) और खाता नं, 1753/2344	96.00 लाख रु.	संपत्ति 6:	
	125, गली नंबर 1, मयूर विहार, इमबरां रोड, लुधियाना-141001,	(जमाबंदी वर्ष 2009-10 के अनुसार) में शामिल प्लॉट रिहायशी मकान धारक एम.सी.नं, बी-1 1125	रकवा 335.00 वर्ग याह पर		05.02.2021 11.00 बजे	श्री मनोज कुमा
	वीमती रनेह लता जैन पत्नी श्री	संपत्ति 6: श्रीमती रनेह लता जैन पत्नी श्री दविंदर जैन ह	और श्रीमती कशी जैन पत्नी श्री	9.60 लाख रू.	से 16.00	सिंह मोबाईल व
		रिपन कुमार जैन के नाम पर बिक्री विलेख नं. 6708 दिनांव		1.00 लाख रू.	बजे तक	0-9463927109
		बारेवल अवाना, स्थानीय तौर पर न्यू आशा पुरी के नाम से			संपत्ति 7:	1
7	बिर 1, बुंदाबन रोड, सिविल लाइंस,	गुरुद्वारा साहिब, लुधियाना, पंजाब-141001 में स्थित जमा	बंदी वर्ष 2006-07 के अनुसार	3.27 करोड़ क.	05.02.2021	श्री मनोज
		खसरा नं, 843, खाता नं, 682/963 में शामिल रिहायशी प	लॉट रकवा 500.00 वर्ग यार्ड।	32.70 लाख क	11.00 खजे	कुमार सिंह
	प्रचंना जैन पत्नी श्री संदीप जैन,	हिस्स्वी संपत्ति 7: श्री संदीप जैन सुपुत्र श्री डिप्टी कुमार जैन और श्री	mak seelen der meh all stelle	1.00 लाख क	से 16.00 बजे तक	मोबाईल ने.
	कान नंबर 48/52, प्रथम तल,	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		1100 1110 111	संपत्ति हः	0-946392710
	ज़िबी बाग, नई दिल्ली, श्रीमती रुचि तैन पत्नी श्री रिपन जैन, मकान	दिनांक 27.04.2015 के अनुसार पंजाबी बाग, पश्चिम, न		2.75 करोड़ क.	The Control of the Co	श्री मनोज
	वन पक्षा श्रा १९५न जन, नकान वंबर बी-l-1125, विष्णु पुरी, गली	ज्ञात दि रेफ्युजीस कॉ-ऑपरेटिय हाऊसिंग सोसायटी लि.,	अनुमोदित कॉलोनी के लेआऊट	Esterna - Production	11.00 बजे	कमार सिंह
	iaर 1, बुंदाबन रोड, सिविल लाइंस,	प्लान में स्थित रोड नं. 52 पर प्लॉट नं. 48 पर निर्मित फ्री		27.50 लाख रु.	से 16.00	कुमार सिंह मोबाईल ने.
	नुधियाना १४१००१ (पंजाब), मै.	रकवा 1350 वर्ग फुट और दूसरा तल, रकवा 1400 वर्ग पु	Comment of the commen	1.00 लाख रू.	बजे तक	0-946392710
V	गोमिया केम (इंडिया), 43 किमी	यहान्स्पड़ (हरिया संपत्ति 8: भोमिया बटन्स प्रा. लि. के नाम पर बिक्री विलेख			10/20/12/07	

असोदा-सिवान, दिल्ली-रोहतक रोड, तहसील बहादुरगढ़, जिला झरुजर, हरियाणा-124057 में स्थित खेवट नं. 213 मिन, खाता नं. 253, रेक्ट नं. 24, किला नं. 14/1 मिन उत्तर-पूर्व (3-13), 15/1(0-7) में शामिल भूमि रकवा 4 कनाल-0 मरला (2420,00 वर्ग यार्ड या 0.50 एकड़) पर निर्मित फैक्टरी भूमि ख भधन। रोहतक रोड, गाँव अशोदा सिवान, सभी संपत्तियां भौतिक कब्जे के अधीन है। टिप्पणी: फैक्टरी भूमि तथा भयन की बिक्री संग्रंत्र एवं मात्रीनरी के साथ की जाएगी परंतु खरीददार संग्रंत्र एवं मात्रीनरी के लिए पुश्रक रूप से बोली कर

तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, सकते हैं (संबंत्र एवं मण़ीनरी की बिक्री राणि पर लागू जीएसटी जिसे नीलामी खरीददार द्वारा जमा किया जाएगा)।

2. मै. श्री प्रवासजी प्रशिको प्रवसपोर्टस प्रा. लि. सीकड़ा रोड़, तारोड़ी, जिला यांच- पखाना, तहसील नीलोखेड़ी, जिला करनाल में स्थित #39थी, त्यागी कालोनी, राजेंद्रा पार्क,

21,24,57,584/- EUU 05.02.2021 04.07.2016 को है जमा 04.07.2016 11.00 बजे करनाल-132116 जिसका कार्यालय फैक्टरी भूमि एवं भवन जिनका विवरण नीचे दिवा है: से प्रभावी आपामी ज्यान और खर्चे इसके से 14.00 खते क) श्री सुरिदर कुमार सुपुत्र श्री विशंबर दयाल के नाम पर बाद की गई किसी वसुली को पटाकर।
 5.00 लाख क. जमार्चदी वर्ष 2004-05 के अनुसार तथा मुटेशन नंबर 1391, दिनोक 13.09.2000 के साथ बिक्री विलेख ने. 91/1, दिनोक 03.05.2000, सप्लीमेंट विलेख ने. 534/

सुरिदर कुमार बिंदल तथा औ सुमित दिनांक 04.08.2000 हारा खेवट नंबर 276 (अब 311), खतीनी नंबर 348 (अब 375) रैक्ट नंबर 40, किला नंबर 26 (2-0) में शामिल 2के-0एम का 1/9 हिस्स कुमार बिंदल दोनों निवासी मकान में. के नाते रकबा 0क-4-1/2एम और खेवट नंबर 215 (अब 305), खतीनी नंबर 284 मिन (अब 369) रैक्ट नंबर 40, किला नंबर 7/1(2-07), 14(8-0), 16/2(4 13), 17(8-0), 24(8-0), 25(8-0), रैक्ट नंबर 54, किला नंबर 4(7-11), 5(7-11), में शामिल प्लाट क्षेत्र रकवा 54क-6-1/2एम। ख) श्री सरिदर कमार सुपत्र श्री विशंबर दयाल के नाम पर जमार्चदी वर्ष 2004-05 के अनुसार तथा मुटेशन नंबर 1390, दिनांक 13.09.2000 के साथ विक्री विलेख नं 90/1, दिनोक 03.05.2000, सप्लीमेंट विलेख नं. 533/1, दिनोक 04.08.2000 द्वारा खेवट नंबर 276 (अब 311), खतीनी नंबर 348 (अब 375) रैक्ट नंबर 40, किला

नंबर 26 (2-0) में शामिल 1/9 हिस्सा के नाते प्लाट क्षेत्र रकवा ठके-4-1/2एम।(श्रीतिक कडवा) टिप्पणी: फैक्टरी भीम तथा भवन की बिक्री संग्रंत एवं मशीनरी के साथ की जाएगी परंतु खरीददार संग्रंत एवं मशीनरी के लिए प्रथक रूप से बोली कर सकते हैं (संग्रंत एवं मशीनरी की बिक्री राशि पर लागु जीएसटी जिसे नीलामी खरीददार द्वारा जमा किया जाएगा)। संयेत्र एवं मशीनरी के लिए एनसीएलटी पृथक ई-नीलामी बिक्री सुचना सेजव कुमार अग्रवाल- श्री श्वापजी

यह प्रकाशन उपरोक्त कर्जदारों व गारंटरों के लिए प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(6) व 6(2) के अधीन 15 दिनों की सूचना भी है

एशिको एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. के परिसमापक द्वारा इसी समाचार पत्र में आज प्रकाशित की है और खरीददार अकेले भी संग्रंत्र एवं मशीनरी के लिए बोली कर सकते हैं।

निर्वाधन एवं प्रार्ते : (1) ई-नीलामी "जैसी है जहां है" तथा "जैसी है जो कुछ है" व बिना शिकायत के आधार पर आयोजित की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान व जानकारी के अनुसार सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। तथापि, इच्छुक बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति के ऋणभार, नीलाम की जाने वाली सम्पत्ति के शीर्षक और दावों/ अधिकारों/ देयताओं/ प्रभावों के बारे में अपनी स्वतंत्र नांच कर लेनी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रतिपृतित ऋणदाता किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए किसी भी तरीके से जिम्मेवार नहीं होगा। (2) यह बोलीदाताओं की जिम्मेवारी होगी कि व बोली प्रस्तुत करने से पूर्व परिसम्पत्ति और विनिर्देशनों के बारे में निरीक्षण करें और अपने आप को संतुष्ट करें। नीलाम की जाने वाली सम्पत्ति का निरीक्षण इच्छक बोलादाताओं को प्रत्येक संपत्ति के अंतर्गत ऊपर वर्णित तिथियों व समय पर अनुमति दी जाएगी। (3) इच्छुक बोलीदाता लॉगइन आइडी तथा पासवर्ड के माध्यम से वेबसाइटः https://www.bankeauctions.com (https://www.bankeauctions.com साथ नाम पंजीकरण द्वारा निःशुल्क यूजर आइटी व पासवर्ट प्राप्त कर सकते हैं) के माध्यम से अपनी इएमटी प्रस्तुत करेंगे। इएमटी की अदायगी निम्नलिखित खाताः 31626203126, खाते का नामः **एसबीआई एसएएमबी**, चंडीगढ़, IFSC Code: SBIN0004262 में एनइएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से करनी होगी, कृपया नीट करें कि चैक को इएमडी की अदायगी के तीर पर माना नहीं जाएगा। (4) वैबयोर्टल में बोलीदाता हारा पंजीकरण के बाद, इच्छुक बोलीदाता/खरीददार को बोली प्रस्तुत करने की जीतम तिथि से पूर्व वैब पीर्टल में निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति को जपलोड करना अपेक्षित होगा जैसे (i) एनइएफटी आरटीजीएस चालान की प्रति (ii) पेन कार्ड की प्रति (iii) पहचान का प्रमाण (केवाईसी) नैसे मतदाता पहचान पत्र/ द्वाइविंग लाईसेंस/ पासपीर्ट आदि की स्वयं सत्यापित प्रति (iv) पते के प्रमाण की प्रति (v) विकिदा प्रपत्र विधिवत चरने तथा हरलाश्चरित करने के बाद परिशिष्ट-॥ य ॥। की प्रतियां अपलोड करना जिनके बिना बोली रद करने के लायक होगी। (5) रुचि रखने वाले बोलीदाता, जो लॉग इन आइडी व पासवर्ड सुजित करने अपलोडिंग हाटा, बोली प्रस्तुतीकरण, इ-बोलीकरण प्रक्रिया आदि पर प्रशिक्षण में सहायता चाहते हैं वो मै. सी। इंडिया प्रा. लि. प्लॉट ने. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-II, गुडगांव (हरियाणा)-122001, हेल्यलाईन नै. 0124-4302021/21/00/23, भी पंतीप सिंह मोबाइल नै. 9646796075, हेल्यलाईन ई-मेल आइडी: support@bankeauctions.com और सम्पत्ति से संबंधित किसी पूछताछ के लिए प्राधिकृत अधिकारी: श्री मनोज कुमार सिंह, मोबाइल नं. १४६३१२७१०, प्राधिकृत अधिकारी की ई-मेल आइडी manoj.kumar.singh4@sbi.co.in व शाखा की ई-मेल आइडी sbi.04262@sbi.co.in पर किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं। (6) केवल वैध यूजर आइडी/ पासवर्ड धारक तथा एनइएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से इएमडी की अदायगी की पुष्टि करने वाले लरीददार ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। (7) इच्छुक बोलीदाता निसने इएमडी हार्ड कापी द्वारा 11.02.2021 को या उससे पूर्व और ऑनलाईन द्वारा 11.02.2021 को अपराह 4.00 बजे से पर्य जो आरक्षित मृत्य के 10% से कम नहीं, जमा की है वो ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। उपरोक्त सम्पत्ति की इ-नीलामी वर्णित अनुसार अधिसुचित तिथि व समय पर उच्चतम बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोलीकरण के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बोलीदाता प्रत्येक सम्पत्ति के अंतर्गत "बोली चृद्धि राशि कॉलम" के अंतर्गत वर्णित राशि के गुणजों में अपने प्रस्ताव सधारेंगे। इ-नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में बोली पहुंचने की रिवात में, समापन समय स्वतः 5 मिनट (5 मिनट प्रति असीमित विस्तार के अधीन) बढ़ जाएगी। जो बोलीदाता उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मृल्य से कम नहीं) इ-नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने पर प्रस्तुत करेगा, उसे सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा और उसे इलैक्ट्रॉनिक विधि द्वारा आवश्यक सम्पेषण भेज दिया जाएगा, जो प्राधिकृत अधिकारी: प्रतिभृतित ऋणदाता के अनुमोदन के अधीन होगा। (8) सफल बोलीदाता की धरोहर राशि (इएमडी) विक्री विचारार्थ के भाग के तौर पर रख लिया जाएगा तथा असफल बोलीदाता की इएमडी वापिस कर दो जाएगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25%, इएमटी को समायोजित करके, प्राधिकृत अधिकारी हारा बोली मूल्य स्वीकार करने के तुरंत अर्थात उसी दिन या अगले कार्यदिवस के बाद नहीं, जमा करवानी होगी. सकल बोलीदाता द्वारा अदायगी में चुक होने की स्थिति में, जमा की गई सभी राशियों को जब्त कर लिया जाएगा और संपत्ति की दुवारा-नीलामी की जाएगी तथा चुककर्ता बोलीदाता का संपत्ति के किसी दाये या उसके किसी भाग पर जिसकी बाद में बिक्री की जाएगी, पर कोई अधिकार नहीं होगा। बकाया 75% बिक्री के 15वें दिन या उससे पूर्व या प्रतिभृति ऋणदाता से लिखित सहमति अनुसार बढ़ाई गई अवधि के अंदर जमा करवाना होगा और इ-नीलामी खरीददार इ-नीलामी की तिथि से तीन महीने के बाद अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी। (१) प्रत्याशित अर्हक बोलीदाता इ-नीलामी की तिथि से पूर्व मैं. सी। इंडिया प्रा. लि. से इ-नीलामी पर ऑनलाइ-प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ना तो प्राधिकृत अधिकारी/बैंक और ना हो. मैं. सी। इंडिया प्रा. लि. किसी इंटरनेट नेटवर्क समस्या के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। तथा रूपि रखने वाले बोलीवाता को इ-नीलामी प्रतियोगित में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से अच्छी तरह से सुसक्ति होना सुनिश्चित करना चाहिए। (10) खरीददार की लागू स्टाम्य द्यूटी/अतिरिक्त स्टाम्य द्यूटी/इस्तारण प्रभार, फीस आदि और सांविधिक/गैर-सांविधिक देयताओं, करों, दरों, असाइनमेंट, प्रभार, फीस आदि का भी यहन करना होगा। (11) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा प्राधिकृत अधिकारी को उस पर बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्ताय को स्वीकार या रह करने अथवा इ-नीलामी टालने/स्थमित करने/रह करने का पूर्ण अधिकार है। (12) बोलीदाताओं को इ-नीलामी में भाग लेने और बोली प्रस्तुत करने से पूर्व मै, सी। इंडिया प्रा. लि. की येबसाइट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध इ-नीलामी की विस्तृत निर्वधन एवं शतों को देखने की सलाह दी जाती है। (13) प्रकाशन प्रभावी मुख्य खंड के अधीन है। (14 बिक्री प्रमाण पत्र प्रतिशृतित ऋणदाता द्वारा विक्री की पुष्टि तथा पूर्ण विक्री विचारार्थ की प्राप्ति के बाद जारी किया जाएगा। बिक्री प्रमाण पत्र सफल बोलीदाता के नाम में जारी किया जाएगा। इ-नीलामी में भाग लेने/ बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के अलावा बिक्री प्रमाण पत्र के नाम में बदलाव हेतु निवेदन विचारा नहीं जाएगा। (15) बोलीदाता द्वारा एक बार प्रस्तुत की गई बोली को रद/वापिस नहीं कर सकता और बोलीदाता अंतिम बोली मूल्य पर संपत्ति खरीदने के लिए बाध्य होगा। इ-नीलामी में वर्णत किसी निर्वधन एवं शतों के अनुपालन करने में असफल होने पर चुककर्ता बोलीदाता द्वारा अदा की गई राशि को जब्त कर लिखा जाएगा। (16) सफल बोलीदाना की घोषणा के संबंध में प्राधिकत अधिकारी का निर्णय अंतिम और सची बोलीदानाओं के लिए बाध्य होगा। प्राधिकत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए सफल बोलीदाना घोषित करने से पूर्व किसी ची वक्त इ-नीलामी प्रक्रिया/निविदा रद्द करने का अधिकार होगा। सशर्त बोलियां अवैध के तौर पर समझी जा सकती हैं। कृपया नोट करें कि बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली में किसी परिवर्तन के संबंध में समप्रेषण विधार नहीं किया जाएगा। सभी सांविधिक/गैर-सांविधिक देवताओं, करें, दरें, असाइनमेंट, प्रधार, फीस आदि की अदावगी केवल सफल बोलीदाता की एकमात्र जिम्मेवारी होगी। बोली की वैधता, बोली की राशि, बोलीदाता की पात्रता के लिए एक बार इएमडी, बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत व्यक्ति का प्राधिकार, हस्तक्षेप के तौर पर किसी विवाद की स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय परिणति के तौर पर अंतिम होगा, बैंक को बिक्री वापिस लेने और बैंक द्वारा निर्णय लिए गए किसी तिथि व समय पर एक बार दोबारा विक्री आयोजित करने का स्वविवेक होगा। किसी प्रकार के विवाद के लिए, बोलीदाता को केवल संबंधित बैंक शास्त्रा के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करना अपेक्षित है। (17) विशेष निर्देश: अंतिम क्षणों में बोलीकरण से स्वहित में बोलीदाता को बचना चाहिए क्वोंकि ना तो **भारतीय स्टेट बैंक और ना ही सेवा प्रदाता किसी चक**्रअसफलता (इंटरनेट अवरोध/पावर विफलता आदि) के लिए निम्मेवार नहीं होंगे। ऐसी आकरिसताओं की स्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से सभी आवश्यक प्रबंधनों/विकल्पों जैसे पावर सप्लाई बैक-अप आदि करने का अनुरोध है,

इसे सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन सांविधिक 15 दिनों की बिक्री सुचना के तौर पर भी समझा जाए।

स्थान: चंडीगढ

ई-नीलामी बिक्री सूचना

श्री श्यामजी एग्निको एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड- (CIN No. U15122DL2014PTC266906)

एमसीए के अनुसार पंजीकृत कार्यालयः 39 बी. त्यागी कालोनी, राजेंद्रा पार्क, नांगलोई, नई दिल्ली- पिन-110041 भारत फैक्टरी पता: गांव पखाना, सौकरा रोड, तारोरी, तहसील नीलोखेडी, जिला करनाल (हरियाणा)

संजय कमार अग्रवाल, IBBI/IPA-002/N-00126/2017-18/10295 परिसमापक का नाम एवं पंजीकरण ने.

जिससे आप ऐसी स्थितियों से बचने के योग्य ही तथा सफलतापूर्वक नीलायी में चाग लने के योग्य हों।

आईबीबीआई के साथ पंजीकृत पता, #14, न्यू पंजाब माता नगर, मेन स्ट्रीट, पखोवल रोड, लुधियाना-141013 (पंजाब),

मोबाईल ने. और ई-मेल आईडी मोबाईल नं. 98761 05414, ई-मेल आइडी: sanjayaggarwal.fcs@gmail.com दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 और इसके अधीन बनाए गए विनियमों के अंतर्गत एतदहारा सूचना दी जाती है कि श्री श्यामजी एत्रिको एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के परिसमापन एस्टेट के भाग

के तौर पर भी श्यामजी एग्रिको एक्सपोर्ट्स प्राईबेट लिमिटेड (परिसमापन में) की परिसंपत्तियों की बिक्री। आईबीसी, 2016 के अंतर्गत माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली बेंच, कोर्ट नं. 11, नई दिल्ले (एए) के आदेश दिनांक 05.11,2019 (जारी आदेश की प्रति और सीपी (आईबी) नंबर 2018 का एनडी 1071 में 30,01,2020 को उपलब्ध हुआ) द्वारा नियक्त परिसमापक के कब्जे में। परिसंपत्तियों की बिक्की अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिसमापक द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता नामतः मै. सी। इंडिया प्रा. लि. उद्योग विहार, फेज-II, गल्फ पेट्रोफैम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, गुडगांव, हरियाणा पिनः 122015, के ई-नीलामी मंच वैवपोर्टल https://www.bankeauctions.com के माध्यम से की जाएगी।

ई-नीलामी की तिथि एवं समय	मुक्रवार अर्घात 12.02.2021 को प्रात: 11.00 बजे से अपराहन 13.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
परिसंपत्तियों के निरीक्षण की तिथि	परिसमापक को पूर्व सूचना पर शुक्रवार अर्वात 05.02.2021 को पूर्वाह 11.30 बजे से अपराह 1.30 बजे के बीच
इएमडी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	वीरवार अर्थात 11.02.2021 को (परिसमापक को ईएमडी ऑनलाईन और अन्य संबंधित दस्तावेज अपराह्न 4.00 बजे वा उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाने हैं)

_	,			
लॉट नं.	परिसम्पत्ति.⁄संपत्तियो का संक्षिप्त विवरण और उनका पता	आरक्षित मृत्य	इएमडी	वृद्धिशील राग्नि
	येबसाइट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्रक्रिया निविदा दस्तायेज विस्तृत निर्वधन एवं शतौं/अस्वीकरण तथा संबंधित विवरण, यदि कोई है, के अनुसार गांव पखाना, सौंकड़ा रोड, तारोरी, तहसील नीलोखेड़ी, जिला करनाल (हरियाणा) के फैक्टरी परिसर में स्थित कंपनी श्री श्वामजी एग्रिको एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड- परिसमापन में, के नाम में संपूर्ण संयंत्र एवं मशीनरी, उसके इक्विपमेंट और अन्य विविध परिसंपत्तियां आदि।	(केवल चार	40.00 लाख रू. (केवल चालीस लाख रुपए)	5.00 लाख क. (केवल पांच लाख रुपए)

ई-नीलामी की निबंधन एवं शर्ते नीचे दिए अनुसार है: 1. ई-नीलामी उपरोक्त वर्णित अनुसार अनुमोदित सेवा प्रदाता के माध्यम से "जैसी है जहां है", "जैसी है जो कछ है तथा जो कछ वहां मौजद है" के आधार पर आयोजित की जाएगी। 2. ऊपरकथित पी एंड एम के लिए इंएमडी बीटी/आस्टीजीएस के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एसएमई शाखा, सैक्टर 8-सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ के साथ अनुरक्षित श्री प्रयामजी परिको प्रक्रियोर्ट्स प्राईबेट लिमिटेड परिसमापन में, के परिसमापन खाता संख्या 00000039178109508 में जमा की जानी है।

2. पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया/निविदा दस्तावेज के साथ अन्य संबंधित दस्तावेज जैसे परिसंपत्तियों का विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, श्राप्थपत्र, घोषणा और वचन फॉर्म, ई-नीलामी बिक्री की सामान्य निर्वधन एवं शर्ते वेबपोर्टलः https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध हैं। संपर्कः श्री पेदीय सिंह +91-9646796075, ई-मेल आइडीः support@bankeauctions.com

> हस्ताक्षरित संजय कुमार अग्रवाल, परिसमापक, श्री श्यामजी एग्रिको एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड (Regd. No. IBBI/IPA-002/N-00126/2017-18/10295

सूचकांक 938 अक टूटा

मुंबई, 27 जनवरी (भाषा)।

विदेशी निवेशकों की ओर से पूंजी निकासी का सिलसिला बढने के बीच शेयर बाजारों में बुधवार को चौतरफा बिकवाली से बडी गिरावट आई। बीएसई सूचकांक जहां 938 अंक लुढ़क कर 47,500 अंक के नीचे पहुंच गया वहीं एनएसई निफ्टी 14,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आ गया। यह लगातार चौथा कारोबारी सत्र है जब बाजार नीचे आया है।

बीएसई सूचकांक 937.66 अंक यानी 1.94 फीसद की गिरावट के साथ 47,409.93 अंक

पर बंद हुआ। कुल मिलाकर चार सत्रों में सूचकांक 2,382.19 अंक यानी 4.78 फीसद टूट चुका है। दिन में इसमें 1,117.65 अंक का उतार-चढ़ाव आया। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 271.40 अंक यानी 1.91 फीसद की गिरावट के साथ 13,967.50 अंक पर आ गया। अब तक चार सत्रों में कुल मिलाकर यह 677.20 अंक यानी 4.62 फीसद घट चुका है। सूचकांक के 30 शेयरों में 24 नुकसान में जबिक छह लाभ में रहे।

सूचकांक के जिन शेयरों में बड़ी गिरावट आई, उनमें एक्सिस बैंक, टाइटन, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, डा. रेड्डीज, एचडीएफसी और एशियन पेंट शामिल हैं। इनमें 4.05 फीसद तक की गिरावट आई। दूसरी तरफ टेक महिंद्रा, आइटीसी, पावरग्रिड, अल्टाटेक सीमेंट, एचसीएल टेक और नेस्ले इंडिया 2.57 फीसद तक मजबूत हए।

खंडवार 19 सचकांकों में से दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों (एफएमसीजी) के शेयरों से जुड़े सुचकांक को छोड़कर अन्य सभी में गिरावट दर्ज की गई। विश्लेषकों के अनुसार निवेशकों ने वायदा व विकल्प खंडों में सौदों के निपटान और अगले सप्ताह पेश होने वाले बजट से पहले मुनाफावसूली को तरजीह दी।

इंगका सर्विसेज एलएलपी

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट सं. 421, डीएलएफ टॉवर ए, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर नई दिल्ली-110 044, एलएलपिन : एएआर-5901 प्रपत्र सं. युआरसी-2

अधिनियम के अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के विषय में सूचना देते हुए

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) तथा कम्पनी (पंजीकरण हेतु अधिकृत)

नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार] . एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उपधारा (2) के अनुसार रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (''सीआरसी''), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (आईआईसीए), प्लॉट सं. 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत 122050 के पास एक आवेदन किये जाने का प्रस्ताव है कि इंगका सर्विसेज एलएलपी को कम्पनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत शेयरों द्वारा कम्पनी लिमिटेड के रूप में पंजीकृत

2. कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

आस्तियों जैसे फंक्शनैलिटी, डेबिट एवं क्रेडिट रिकॉर्ड जैसे इंट्रा-कॉर्पोरेट लेखांकन, वेंडर देयताएं, आस्टि ट्रैकिंग एवं गैर-वित्तीय प्रचालन जैसे कॉल सेंटर सेवाएं, फ्रेट कॉस्ट मैनमेजमेंट एवं कुछ जियोग्राफी एव अन्य बैकेन्ड ऑफिस सम्बन्धी ऑर्डर प्रोसेसिंग को कवर करने वाले प्रबंधन प्रचालन के लिए शेयर्ड सर्विस सेंटर (''वैश्विक व्यापार संचालन केंद्र'') की संस्थापना। ऐसी सेवाओं में निम्नलिखित शामिल : आईटी सेवाएं : पैकेज्ड एप्लीकेशन्स एवं कस्टम एप्लीकेशन्स का डिजाइन एवं विकास, ईआरपी ए गैर-ईआरपी के एएमएस हेतु एप्लीकेशन प्रबंधन सपोर्ट, योजना, कार्यान्वयन एवं अनुबंध सहित ईआरपी एवं गैर-ईआरपी समाधान, क्रियान्वयन तथा अनुबंध, परीक्षण सेवाएं जिनमें आटोमैटिक तथा मैनुअल टेस्टिंग शामिल है, एनलिटिक्स एवं डाटा प्रबंधन सपोर्ट, नवीन एप्लीकेशन, व्यापारिक निरन्तरता सपोर्ट एप रेशनलाइजेशन, आर्किटेक्चर एवं डिजाइन सपोर्ट, परियोजना प्रबंधन तथा वेंडर प्रशासन एवं सर्पोट सिहत परियोजना सेवाएं, तथा सेवा ग्रहण करने वाले द्वारा निवेदित कोई अन्य सपोर्ट।

आईटीईएस सपोर्ट : एचआर सपोर्ट जैसे पेरोल सेवाएं, कर्मचारी डाटा प्रबंधन एवं भर्ती सेवाएं, वित्त तथ लेखांकन सम्बन्धी कार्य जैसे इनवॉयसिंग एवं बिलिंग प्रबंधन एवं प्रसंस्करण, जर्नल प्रविष्टियों की पोस्टिंग जनरल लेजर लेखांकन का निष्पादन, लेखा प्राप्तियां एवं अशोध्य ऋण वसूली, इंट्रा कम्पनी बिलिंग ए रिपोर्टिंग, बिजिनेस एनलिटिक्स सपोर्ट, वेंडर डाटा प्रबंधन, देय लेखे एवं सोर्सिंग तथा खरीद प्रक्रियाए आपूर्तिकर्ता प्रशासन, जैसे ऑफशोर सपोर्ट, प्रबंधन अनुबन्ध, एप्लीकेशन विकास सपोर्ट, आर्किटेक्चरल डिजाइन एवं परीक्षण जैसे समाधान एवं प्रशन, एप्लीकेशन रेशनलाइजेशन, तथा बिक्री एवं विपणन सपोर्ट आपुर्ति श्रृंखला प्रबंधन सपोर्ट, प्रक्रिया प्रबंधन, प्रक्रिया उन्नयन सेवाएं, प्रोग्राम प्रबंधन सेवाएं, ग्रुप संस्था को ग्राहक अनुभव सेवाएं, एवं सेवा ग्रहण करने वाले के निवेदन पर कोई अन्य सपोर्ट। 3. प्रस्तावित कम्पनी के प्रारूप ज्ञापन तथा संस्था के अन्तर्नियमों की एक प्रति कार्यालय यूनिट सं. डीएलएफ टॉवर ए, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर नई दिल्ली-110 044 पर निरीक्षित की जा सकती है। 4. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (''सीआरसी''), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर (आईआईसीए), प्लॉट सं. 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत-122050

पर कम्पनी के ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय पर एक प्रति भेजते हुए लिखित में अपनी

दिनांक: 28.01.2021

आपत्तियाँ इस सुचना की प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर भेज सकता है।

कते इंगका सर्विसेज एलएलपी 1. सुश्री ललिता इंद्रक्रान्ति [DIN: 06984353] 2. सुश्री दिव्या कुमार [DIN: 08666521]

सार्वजनिक घोषणा (ऋणशोधन एवं दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 का

आरजीटीएल इंडस्टीज लिमिटेड के हितधारकों के अवधानार्थ परिसमापक द्वारा ग्रहण किए गये दावों के प्रमाण के अनुसार हितधारकों की श्रेणीवार फाइलिंग

क्र.सं.	हितधारक की श्रेणी		प्राप्त दावा	स्वीकृत दावा	
		संख्या	मूल्य		
1	वित्तीय क्रेडिटर (प्रतिभूत)	4	2,39,68,08,318	2,38,27,60,874	
2	वित्तीय क्रेडिटर (अप्रतिभूत)	6	21,57,14,992	20,27,18,766	
3	कामगार एवं कर्मचारी	4	72,71,838	60,85,926	
4	प्रचालनात्मक क्रेडिटर	6	73,82,028	70,28,451	
5	अन्य हितधारक	3	61,10,45,479	16,41,93,210	
6	सरकार	2	20,48,71,107	20,48,71,107	
	कुल		3,44,30,93,763	2,96,76,58,334	
		- 1			

सुचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, दिल्ली पीठ के आदेश दिनांक 09 नवम्बर, 2020 (10 नवम्बर, 2020 को प्राप्त हुआ) के माध्यम से आरजीटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जारी परिसमापन प्रक्रिय के अनुसार, अधोहस्ताक्षरी ने माननीय अधिकरण के पास हितधारकों की सूची 23 जनवरी, 2021 को फाइल की है। यह फाइलिंग 13 नवम्बर, 2020 को प्रपत्र ख में सार्वजनिक घोषणा के अनुसार हितधारकों से प्राप्त दावों के

हितधारकों की विस्तृत सूची वेबसाइट http://rgtlindustries.in/ पर उपलब्ध होगी। उपर्युक्त से सम्बन्धित किसी पूछताछ या विवरण के लिए हितधारक अधोहस्ताक्षरी से निम्नलिखित विवरण पर सम्पर्क करें।

आरजीटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के परिसमापव पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00310/2017-2018/10899 पंजीकृत पता : फ्लैट सं. 1501, स्प्रिंग ग्रोव टावर्स, लोखण्डवाला टाउनशिप, कांदीवली ईस्ट, मुम्बई ई-मेल आईडी: rgtl.liquidation@gmail.com



प्रताप सिंह

मोबाईल ने.

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED CIN: L35911HR1965PLC004485

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area,

Yamuna Nagar - 135001, Haryana Corporate Office: 2, Park Lane, Kishangarh, Vasant Kunj, New Delhi - 110070 Telephone: +91 11 26893331, Fax: +91 11 26893180 Website: www.jaispring.com

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, notice is hereby given that meeting no 5/2020-21 of the Board of Directors of the Company will be held on Friday. February 05 2021 at 1:00 P.M., to consider, approve and take on record the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results of the Company for the guarter ended December 31, 2020 and to consider and recommend the interim dividend, if any, for the financial year 2020-21 along with other matters.

Further, in terms of provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2019 and Company's Code of Conduct for insider trading & fair disclosure, the trading window closure period for dealing in securities of the Company by the insiders has commenced from Friday, January 01, 2021 and the same will open 48 hours after the quarterly financial results are made public on Friday, February 05, 2021.

The above details are also available on the website of the Company viz www.jaispring.com and also on the website of the Stock Exchanges viz www.bseindia.com and www.nseindia.com

For Jamna Auto Industries Limited

Praveen Lakhera

Place: New Delhi Date: January 27, 2021 Company Secretary & Head-Legal

Hero

दिनांक: 27/01/2021

प्राधिकत अधिकारी

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः द ग्रेन्ड प्लाजा, प्लॉट नं. 2, नेल्सन मंडेला रोड. वसंत कंज - फेस-॥, नई दिल्ली - 110070 CIN: L35911DL1984PLC017354 | फोन: 011-46044220 फैक्स: 011-46044399 | इंमेल: secretarialho@heromotocorp.com वेबसाइट : www.heromotocorp.com

ड्प्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सार्वजनिक सूचना

आम जनता के सदस्यों और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ('कंपनी') के मौजदा शेयरधारकों को सचित किया जाता है कि मूल शेयर प्रमाणपत्र (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) चोरी हो गए हैं / नहीं मिले हैं / गुम हो गए हैं, ऐसी सुचना संबंधित शेयरधारकों से इस संबंध में प्राप्त हुई हैं। कंपनी उनके पक्ष में मूल शेयर प्रमाणपत्र (ऑकत मुल्य रू. 2/-) के एकन में इप्लोकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का इरादा रखती है:

फोलियो नं.	शेयरधारकों का नाम	अंकित मूल्य	डिसटिन्कटिव नं,	प्रमाणपत्र संख्या	शेयरों की संख्या
HML0084900	सीमन्ति बगवी	₹. 2/-	47410401-47411270	513618	870
		₹. 10/-	4264916-4264965 12614727 -12614746 16260042 -16260051	85308 146288 243091	50 20 10
			16260052 -16260056 16260057 -16260058 21061060-21061109 21061110 -21061146	243092 243093 346248 346249	05 02 50 37
HML0037600	श्रीकान्त गिरधरलाल शाह	₹. 2/-	45044536 - 45044735	508801	200
HML0118071	एस के खोसला	₹. 10/-	1389666 - 1389715	27803	50
HML0091102	कुलवंत सिंह बग्गा दर्शन सिंह बग्गा	₹. 10/-	18384174 -18384223	247952	50
HML0111337	अशोका कुमारी तुनगुंटला	₹. 2/-	159371786-159371850	528163	65

किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी द्वारा इपलीकंट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से आपत्ति है तो इस सचना कं प्रकाशन की तारीख़ से 7 दिनों के भीतर लिखित में कंपनी के 'सचिवीय डिपॉटमेंट' को प्रस्तुत करते हुए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर या ई-मेल secretarialho@heromotocorp.com पर भेजें। इस बीच जनता के सदस्यों को ऊपर उल्लेखित शेयर प्रमाण पत्रों में निवेश करने के खिलाफ आगाह किया जाता है।

कृते हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड नीरजा हामां स्थानः नई दिल्ली

कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी

भारत के नए कृषि कानूनों में किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता : गोपीनाथ

वाशिंगटन, २७ जनवरी (भाषा)।

आइएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत में हाल में लागू कृषि कानूनों में किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन साथ ही कमजोर किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि को सुधारों की जरूरत है।

वाशिंगटन स्थित वैश्विक वित्तीय संस्थान की मुख्य अर्थशास्त्री ने मंगलवार को कहा कि ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां सुधार की जरूरत है। भारत सरकार ने पिछले साल सितंबर में तीन कृषि कानूनों को लागू किया था, और इन्हें कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों के रूप में पेश किया गया है, जो बिचौलियों को दूर करेगा और किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की आजादी देगा गोपीनाथ ने नए कृषि कानूनों पर एक सवाल के जवाब में कहा, 'ये कृषि कानून खासतौर से विपणन क्षेत्र से संबंधित हैं। इनसे किसानों के लिए बाजार बड़ा हो रहा है। अब वे बिना कर चुकाए मंडियों के अलावा कई स्थानों पर भी अपनी पैदावार बेच सकेंगे। और हमारा मानना है कि इसमें किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता है।' उन्होंने कहा. 'जब भी कोई सधार किया जाता है, तो उससे होने वाले बदलाव की एक कीमत होती है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे कमजोर किसानों को नुकसान न पहुंचे। यह सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है। अभी एक फैसला किया गया है, और देखना होगा कि इसका क्या नतीजा सामने आता है।'

यस बैंक के सहसस्थापक राणा कपूर गिरफ्तार

नई दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यस बैंक के सह-प्रवर्तक राणा कप्र को ताजा धनशोधन मामले में गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक में 4,300 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। कपूर फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

केंद्रीय जांच एजंसी ने पिछले साल मार्च में 63 वर्षीय कपुर को वित्तीय अनियमितताएं और यस बैंक द्वारा कई बड़े कर्जदारों को दिए गए कर्ज के बदले उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को मिले रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था। सुत्रों के अनुसार गिरफ्तारी के बाद उन्हें विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें दूसरे धनशोधन मामले में 30 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। ताजा मामला पीएमसी बैंक में कथित कर्ज धोखाधडी से जुडा है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

शाखाः आसफ अली रोड शाखा 1/20, आसफ अली रोड, दिल्ली - 110002 फोन : 011-23237020, ईमेल:- d0435@psb.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) नियम 8(1) जबकि अघोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित

प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** का प्राधिकत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **कर्जदारों / गारंटरों श्री रघुबीर चहल (कर्जदार), सुश्री** अनीता चहल (सह–कर्जदार) और श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव (गारंटर) को मांग नोटिस दिनांक 07.01.2020 को जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में बकाया राशि रू. 13,83,403.30 (रु. तेरह लाख तिरासी हजार चार सौ तीन और पैसे तीस मात्र) दिनांक 31.12.2019 तक और भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता / गारंटर उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा दिनांक 22.01.2021** को

उधारकर्ता / गारंटर को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्ति के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन पंजाब एण्ड सिंध बैंक, को देय बकाया राशि रू. 13.83.403.30 दिनांक 31.12. 2019 तक, और भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि अचल सम्पत्ति नं. F-3/97 & 98 तृतीय तल (छत के अधिकार सहित), सैक्टर-16, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 में स्थित,

दिनांक 22.01.2021, स्थान : दिल्ली

यह सम्पत्ति सुश्री अनीता चहल पत्नी श्री रघुवीर चहल के नाम पर है।

प्राधिकत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंघ बैंक एन टी पी सी लिमिटेड एनटीपीसी

NTPC

सीआईएनः L40101DL1975GOI007966

पंजीकृत कार्यालयः एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लैक्स, ७ इंस्टीटयुशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 फोन नं. 011-24360100,

फैक्स नं. 011-24361018, ई-मेलः csntpc@ntpc.co.in, वेबसाइटः www.ntpc.co.in बोर्ड बैठक और रिकॉर्ड तिथि के निर्घारण की सूचना भारतीय प्रतिभृति तथा विनिमय बोर्ड (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में एतदहारा सचित किया जाता है कि 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह अवधि के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों को बोर्ड

की लेखापरीक्षा समिति द्वारा इन परिणामों की समीक्षा के बाद कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा नई दिल्ली में बुहस्पतिवार, 4 फरवरी, 2021 को आयोजित होने वाली अपनी बैठक में विचार, अनुमोदन

कर रिकॉर्ड में लिया जाएगा। निदेशक मंडल की इस बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2020-21 के लिए कम्पनी की इविवटी शेयर पूंजी पर अंतरिम लामांश पर भी विचार किया जा सकता है। पनः सचित किया जाता है कि कम्पनी ने उपरोक्त अंतरिम लाभांश, यदि बोर्ड द्वारा घोषित किया जाता है. के भगतान के लिए शेयरधारकों की योग्यता को जांचने के लिए **शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021** को "रिकॉर्ड तिथि" के रूप में निर्धारित किया है। अंतरिम लाभांश, यदि घोषित किया जाता है, केवल उन योग्य सदस्यों या उनके अधिदेश को भगतान

किया जाएगा जिनके नाम निम्नानसार शामिल होंगे: (क) इलेक्ट्रॉनिक / डिमेट प्रारूप में धारित शेयरों के संबंध में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी

लिमिटेड और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई लामार्थी स्वामियों की सुची के अनुसार शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर लाभार्थी स्वामी (ख) शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को या उससे पूर्व दर्ज भौतिक प्रारूप में सभी लेन—देन को प्रभावी

बनाने के बाद कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में। इसके अलावा, लागांश के कराधान के संबंध में वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी बदलावों के अनुसरण में आप एनटीपीसी वेबसाइट पर शीर्षक Investors<Dividend TDS Communication के अंतर्गत सभी शेयरधारकों / संभावित शेयरधारकों के लिए अपलोब किये गये

संवाद का अवलोकन कर सकते हैं। कथित सूचना तथा कोई अन्य जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.ntpc.co.in से प्राप्त की जा

सकती है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com से भी प्राप्त किया जा सकता है। डिमेटिरियलाइज्ड शेयरों के मामले में अंतरण हेत् अनुरोध, पते में परिवर्तन के लिए पत्राचार, बैंक

विवरण और ईसीएस विवरण शेयरधारकों के संबंधित डिपॉजिटरी भागीदारों को भेजे जाने चाहिए। भौतिक प्रारूप में धारित शेयरों के संबंध में उपरोक्त विवरण निम्नलिखित पते पर कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास भेजे जाने चाहिए

अलंकित एसाइनमेंटस लिमिटेड, युनिट: एनटीपीसी लिमिटेड अलंकित हाउस, 4ई / 2. झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 27.01.2021

कम्पनी के इक्विटी शेयर इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने हैं अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वह अपना ई-मेल पता 🖣 अपने डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के पास पंजीकृत करा लें जिससे हम भविष्य में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से दस्तावेज भेज सकें। जिन सदस्यों ने अपना ई-भेल आईडी पंजीकृत करा लिया है, उनसे अनुरोघ है कि वह इसे अपने डीपी के साथ वैघ रखें। भौतिक प्रारूप में इक्विटी शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वह अपना ई—मेल पता अलंकित एसाइनमें ट्स लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत करा लें जिससे हम भविष्य में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से दस्तावेज भेज सकें।

कते एनटीपीसी लिमिटेड हस्ता./-(नंदिनी सरकार) कम्पनी सचिव

विद्युत क्षेत्र में अञ्चणी

www.readwhere.com

तिथि: 28.01.2021

स्थानः लुधियाना

तिथि: 28.01.2021